

stitute will also be under the examination of this committee?

Dr. P. S. Deshmukh: I cannot say that. But in all probability—I cannot commit myself—they must have gone through the research programme of that Institute also.

Hydrogenated Oils

1977. { **Shri Ram Krishan Gupta:**
Shri D. C. Sharma:

Will the Minister of Health be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 793 on the 11th December, 1959 and state:

(a) whether Government have arrived at a definite conclusion regarding the effects of hydrogenated oils on the consumers; and

(b) if so, the details of the conclusion arrived at?

The Minister of Health (Shri Karmarkar): (a) No definite conclusions have yet been arrived at.

(b) Doest not arise.

Shri Ram Krishan Gupta: May I know whether a decision has been taken to carry on experiments on long-term basis?

Shri Karmarkar: Sir, I had the privilege of placing before the House all the present facts available. Now, these experiments are to continue on long term basis.

Shri Ram Krishan Gupta: In reply to a previous question the hon. Minister stated that coconut oil was not satisfactory as compared to other oils. In view of this may I know whether there is any proposal to put restriction on the manufacture of ghee from this oil?

Shri Karmarkar: You will agree, Sir, that the Question Hour is not meant for discussing the relative values of the oils. My present information from the point of view of the effects on the cholesterol levels—if my hon. friend asks me what it means, I

will tell him later—is that the kurdi oil has been found to be the best and the coconut oil has been found to be the worst.

Shri D. C. Sharma: May I know if the study of these effects on consumers is being made on all the sections of the population or only on a particular section of the population?

Shri Karmarkar: I could not follow, Sir.

Shri D. C. Sharma: May I know if all types of consumers of hydrogenated oil are being examined with a view to see effects on them or only a particular section of the population?

Shri Karmarkar: There are different types. But in this matter any type will do.

सेठ गोबिन्द दास : माननीय मंत्री जी का यह बात मालूम है कि यह प्रश्न वर्षों से बिना निर्णय के पड़ा हुआ है और जब कभी इस प्रश्न पर कोई बात होती है, तो हमेशा टाल दिया जाता है प्रागे के लिए । मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब इस सम्बन्ध में विशेषज्ञों की राय में मत-भेद भी है, तो भी देश को तन्दरुस्ती की दृष्टि से या तो इस को रंग देना, या उस का जमाया जाना बन्द करना, इस सम्बन्ध में कोई न कोई निर्णय गवर्नमेंट करने वाली है या नहीं करने वाली है ।

श्री करमरकर : रंग देने का सवाल अभी हाउस के सामने नहीं है । इस समय हाउस के सामने हाइड्रोजनेटिड जायन्ड के मेरिट्स का सवाल है । अभी माननीय सदस्य शायद काम के लिए गए हुए थे । उस वक्त मैं ने बताया था कि बेशक Fresh oil is any day better than the hydrogenated oils. There is no doubt about it. अगर माननीय सदस्य मेरी राय पूछें, तो मैं कहूंगा कि फ्रेश प्रायल ही अच्छा है और हाइड्रोजनेटिड प्रायल की कोई जरूरत नहीं है ।

सेठ गोविन्द दास : मैं पूछ रहा था कि सरकार का कोई न कोई निर्णय इस सम्बन्ध में होने वाला है या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न रोज़ घाता है।

श्री करमरकर : निर्णय हुआ है। आज तक इस बारे में जो रिसर्चिज हुए हैं, उन में से यह बात निकली है कि हाइड्रोजनेटिड घायल में एक स्टेइंग वैल्यू होती है। तब यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रमाण में होता है और उस का फायदा देहातियों को होना चाहिए। तो तब का तर्जुमा करते हैं हाइड्रोजनेटिड घायल में इस के भलावा हाइड्रोजनेटिड घायल में कोई दूसरा गुण नहीं है, जो कि फेज घायल में बेहतर होता है।

सेठ गोविन्द दास : तो फिर उस का जमान बन्द कर दिया जाय।

Shri Karmarkar: Fresh oil is the best oil fat for the consumers. That is the considered decision of the Government. It is very easy for my hon. friend to say to stop it. If we stop it from tomorrow that will have retarding effect upon the agriculturists and there is no reason to stop it because it has not been found to have a deleterious effect. It has some less virtues than the fresh oil but it is something other than causing a deleterious effect. That is the present position. Our present opinion is that the fresh oil should be consumed.

Shri Shivananajappa: May I know whether the hydrogenated rice bran oil has been tried and tested?

Shri Karmarkar: That is a separate question, Sir.

Central Regional and Urban Planning Organisation

*1380, **Shri Bibhuti Mishra:** Will the Minister of Health be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Central Regional and Urban Planning

Organisation of the Union Ministry of Health has drawn up some schemes to develop various townships in the country; and

(b) if so, the names of the towns which are going to be developed?

The Minister of Health (Shri Karmarkar): (a) The Central Regional and Urban Planning Organisation does not itself draw up schemes for developing new townships. It is meant to offer advice and guidance to State Governments, local Bodies and Ministries of the Government of India.

(b) At present the Organisation is helping in the drawing up of schemes for developing the following townships/projects:—

(1) Rajasthan Canal Project.

(2) Indian Oil Refineries—Township at Barauni.

(3) Oil and Natural Gas Commission—A Township at Cambay.

(4) National Mineral Development Corporation—A Township at Kiriburu, Orissa.

(5) Government of Uttar Pradesh Tarai Agricultural University.

श्री बिभूति मिश्र : इन जगहों को जो डिबेलेर किया जाएगा, इस पर कितना खर्च करने का प्रायोजन गया है ?

श्री करमरकर : इनको डिबेलेर नहीं करना है। मैंने अंग्रेजी में यह कहा है कि इस समस्या का फकत डिबेलेर करना नहीं है बल्कि जो डिबेलेर करना चाहते हैं उनका मनाह देना है।

श्री कीरोल गांधी : इनका मबान यह था कि कितना खर्च होगा?

श्री करमरकर : थोड़ा बहुत होगा।

श्री पद्म बेब : जब हिन्दुस्तान में हर एक चीज के वास्तु योजना बन रही है, योजना के मुताबिक काम हो रहा है तो जहाँ तक नए नगरों के निर्माण का सम्बन्ध है, जॉकि हों